



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1015]

नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 14, 2018/फाल्गुन 23, 1939

No. 1015]

NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 14, 2018/PHALGUNA 23, 1939

कोयला मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 मार्च, 2018

का.आ. 1135(अ).—केन्द्रीय सरकार, कोयला धारक क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 (1957 का 20) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 4 की उप-धारा (1) अधीन जारी भारत सरकार के कोयला मंत्रालय की अधिसूचना संख्याक का. आ. 1360(अ), तारीख 7 अप्रैल, 2016, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii), तारीख 8 अप्रैल, 2016 में प्रकाशित की गई थी, द्वारा उससे संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट परिक्षेत्र की भूमि में 2072.97 हेक्टर (लगभग) या 5122.41 एकड़ (लगभग) माप वाली भूमि में कोयले का पूर्वेक्षण करने के अपने आशय की सूचना दी थी;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये 7 अप्रैल, 2018 से प्रारंभ होने वाली एक वर्ष की और अवधि को, ऐसी अवधि के रूप में विनिर्दिष्ट करती है जिसके भीतर केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उप-धारा (1) के अधीन इससे संलग्न अनुसूची में यथाविनिर्दिष्ट उक्त भूमि को या ऐसी भूमि में अथवा उस पर के किसी अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की सूचना दे सकेगी।

अनुसूची

एनटीपीसी लिमिटेड का मंदाकिनी-बी कोयला खनन ब्लॉक

जिला—अंगुल, ओडिशा

(रेखांक संख्या एनटीपीसी/सीएम/एमके-बी/सेक्शन-4/16/01, तारीख 14 जनवरी, 2016)

क्रम सं.	ग्राम का नाम	थाना संख्या	तहसील	जिला	क्षेत्र हेक्टेयर में (लगभग)	क्षेत्र एकड़ में (लगभग)	टिप्पणियां
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	चांगुडिया	64	छेंदीपदा	अंगुल	464.30	1147.31	भाग
2.	संतराबंध	106	छेंदीपदा	अंगुल	311.24	769.09	भाग
3.	सुनारीपाल	65	छेंदीपदा	अंगुल	51.52	127.32	भाग

4.	टाकुआ	109	छेदीपदा	अंगुल	31.33	77.42	भाग
5.	बईडा	82	कनिहाँ	अंगुल	2.88	7.11	भाग
6.	बालीपाटा	71	कनिहाँ	अंगुल	75.61	186.84	भाग
7.	चांगुडिया	73	कनिहाँ	अंगुल	158.65	392.02	भाग
8.	देबीपटनापुर	76	कनिहाँ	अंगुल	37.63	92.99	भाग
9.	काकुडिया	72	कनिहाँ	अंगुल	512.49	1266.35	भाग
10.	कल्याणपुर	77	कनिहाँ	अंगुल	40.76	100.73	भाग
11.	सानबीरबरपुर	75	कनिहाँ	अंगुल	11.70	28.92	पूर्ण
12.	सांतराबंध	74	कनिहाँ	अंगुल	374.86	926.31	भाग
कुल क्षेत्र:					2072.97	5122.41	

कुल क्षेत्र: 2072.97 हेक्टेयर(लगभग)
या 5122.41 एकड़ (लगभग)

सीमा —वर्णन:

- (1) रेखा क-क1: रेखा, ग्राम कल्याणपुर के मध्य भाग पर स्थित बिन्दु 'क' से आरंभ होती है और पश्चिम दिशा को जाती है और ग्राम कल्याणपुर और काकुडिया की सीमा पर बिन्दु 'क1' पर समाप्त होती है।
- (2) रेखा क1-क2: रेखा, ग्राम कल्याणपुर और काकुडिया की सीमा पर स्थित बिन्दु 'क1' से आरंभ होती है और पश्चिम दिशा को जाती है और ग्राम काकुडिया के मध्य भाग में स्थित बिन्दु 'क2' पर समाप्त होती है।
- (3) रेखा क2-क3: रेखा, ग्राम काकुडिया के मध्य भाग में स्थित बिन्दु 'क2' से आरंभ होती है और दक्षिण दिशा को जाती है और ग्राम काकुडिया और देबीपटनापुर की सीमा पर स्थित बिन्दु 'क3' पर समाप्त होती है।
- (4) रेखा क3-क4: रेखा, ग्राम काकुडिया और देबीपटनापुर की सीमा पर स्थित बिन्दु 'क3' से आरंभ होती है और दक्षिण दिशा को जाती है और ग्राम देबीपटनापुर और बईडा की सीमा पर स्थित बिन्दु 'क4' पर समाप्त होती है।
- (5) रेखा क4-क5: रेखा, ग्राम देबीपटनापुर और बईडा की सीमा पर स्थित बिन्दु 'क4' से आरंभ होती है और दक्षिण दिशा में जाती है और ग्राम बईडा और टाकुआ की सीमा में बिन्दु 'क5' पर समाप्त होती है।
- (6) रेखा क5-क6: रेखा, ग्राम बईडा और टाकुआ की सीमा पर स्थित बिन्दु 'क5' से आरंभ होती है और दक्षिण दिशा को जाती है और ग्राम टाकुआ के मध्य भाग पर स्थित बिन्दु 'क6' पर समाप्त होती है।
- (7) रेखा क6-क7: रेखा, ग्राम टाकुआ के मध्य भाग पर स्थित बिन्दु 'क6' से आरंभ होती है और पश्चिम-उत्तर-पश्चिमी दिशा को जाती है और ग्राम टाकुआ और संतराबंध (थाना सं0 106) की सीमा पर स्थित बिन्दु 'क7' पर समाप्त होती है।
- (8) रेखा क7-क8: रेखा, ग्राम टाकुआ और संतराबंध (थाना सं0 106) की सीमा पर स्थित बिन्दु 'क7' से आरंभ होती है और पश्चिम-उत्तर-पश्चिमी दिशा को जाती है और ग्राम संतराबंध (थाना सं0 106) के मध्य भाग पर स्थित बिन्दु 'क8' पर समाप्त होती है।
- (9) रेखा क8-क9: रेखा, ग्राम संतराबंध (थाना सं0 106) के मध्य भाग पर स्थित बिन्दु 'क8' से आरंभ होती है और उत्तर-पश्चिमी दिशा को जाती है और ग्राम संतराबंध (थाना सं0 106) और सांतराबंध (थाना सं0 74) की सीमा पर स्थित बिन्दु 'क9' पर समाप्त होती है।
- (10) रेखा क9-क10: रेखा, ग्राम संतराबंध (थाना सं0 106) और सांतराबंध (थाना सं0 74) की सीमा पर स्थित बिन्दु 'क9' से आरंभ होती है और उत्तर-पश्चिमी दिशा को जाती है और ओलहानी नदी पर स्थित बिन्दु 'क10' पर समाप्त होती है।

- (11) रेखा क10—क11: रेखा, ओलहानी नदी में स्थित बिन्दु 'क10' से आरंभ होती है और उत्तर-पूर्वी दिशा में ओलहानी नदी के साथ जाती है और ग्राम सांतराबंध (थाना सं0 74) और सुनारीपल की सीमा पर स्थित बिन्दु 'क11' पर समाप्त होती है।
- (12) रेखा क11—क12: रेखा, ग्राम सांतराबंध (थाना सं0 74) और सुनारीपाल की सीमा पर स्थित बिन्दु 'क11' से आरंभ होती है और उत्तर-पूर्वी दिशा में ओलहानी नदी के साथ जाती है और ग्राम सुनारीपाल और चांगुड़िया (थाना सं0 64) की सीमा पर स्थित बिन्दु 'क12' पर समाप्त होती है।
- (13) रेखा क12—क13: रेखा, ग्राम सुनारीपाल और चांगुड़िया (थाना सं0 64) की सीमा पर स्थित बिन्दु 'क12' से आरंभ होती है और उत्तर-पूर्वी दिशा में ओलहानी नदी के साथ जाती है और ग्राम चांगुड़िया (थाना सं0 64) और ओलहानी नदी में स्थित बिन्दु 'क13' पर समाप्त होती है।
- (14) रेखा क13—क14: रेखा, ग्राम चांगुड़िया (थाना सं0 64) और ओलहानी नदी में स्थित बिन्दु 'क13' से आरंभ होती है और पूर्व-दक्षिण-पूर्वी दिशा को जाती है और ग्राम चांगुड़िया (थाना सं0 64) और चांगुड़िया (थाना सं0 73) की सीमा पर स्थित बिन्दु 'क14' पर समाप्त होती है।
- (15) रेखा क14—क15: रेखा, ग्राम चांगुड़िया (थाना सं0 64) और चांगुड़िया (थाना सं0 73) की सीमा पर स्थित बिन्दु 'क14' से आरंभ होती है और पूर्व-दक्षिण-पूर्वी दिशा को जाती है और ग्राम चांगुड़िया (थाना सं0 73) और काकुड़िया की सीमा पर स्थित बिन्दु 'क15' पर समाप्त होती है।
- (16) रेखा क15—क16: रेखा, ग्राम चांगुड़िया (थाना सं0 73) और काकुड़िया की सीमा पर स्थित बिन्दु 'क15' से आरंभ होती है और पूर्व-दक्षिण-पूर्वी दिशा को जाती है और ग्राम काकुड़िया और बालीपाटा की सीमा पर स्थित बिन्दु 'क16' पर समाप्त होती है।
- (17) रेखा क16—क17: रेखा, ग्राम काकुड़िया और बालीपाटा की सीमा पर स्थित बिन्दु 'क16' से आरंभ होती है और पूर्व-दक्षिण-पूर्वी दिशा को जाती है और ग्राम बालीपाटा के मध्य भाग पर स्थित बिन्दु 'क17' पर समाप्त होती है।
- (18) रेखा क17—क18: रेखा, ग्राम बालीपाटा के मध्य भाग पर स्थित बिन्दु 'क17' से आरंभ होती है और दक्षिण दिशा को जाती है और ग्राम बालीपाटा और कल्याणपुर की सीमा पर स्थित बिन्दु 'क18' पर समाप्त होती है।
- (19) रेखा क18—क: रेखा, ग्राम बालीपाटा और कल्याणपुर की सीमा पर स्थित बिन्दु 'क18' से आरंभ होती है और दक्षिण दिशा को जाती है और ग्राम कल्याणपुर के मध्य भाग पर स्थित बिन्दु 'क' पर समाप्त होती है।

[फा.सं. 43015/05/2016—एलए एण्ड आईआर]

एन.के. सुधांशु, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF COAL

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th March, 2018

S.O. 1135(E).—Whereas, by notification of the Government of India in the Ministry of Coal number S.O. 1360(E), dated the 7th April, 2016, under sub-section (1) of section 4 of the Coal Bearing Areas (Acquisition and Development) Act, 1957 (20 of 1957) (hereinafter referred to as the said Act) and published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 8th April, 2016, the Central Government gave notice of its intension to prospect for coal in land measuring 2072.97 hectares (approximately) or 5122.41 acres (approximately) in the locality specified in the Schedule appended thereto;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 7 of the said Act, the Central Government hereby specifies a further period of one year commencing from the 7th April, 2018, as the period within which the Central Government gives notice of its intension to acquire the said land or any rights in or over the said land specified in the Schedule appended hereto, under sub-section (1) of section 4 of the said Act.

SCHEDULE

Mandakini-B Coal Mining Block of NTPC Limited

District-Angul, Odisha

(Plan bearing number NTPC/CM/MK-B/Sec-4/16/01, dated the 14th January, 2016)

Sl. No.	Name of Village	Thana number	Tehsil	District	Area in hectares (approximate)	Area in acres (approximate)	Remarks
1.	Changuria	64	Chhendipada	Angul	464.30	1147.31	Part
2.	Santrabandh	106	Chhendipada	Angul	311.24	769.09	Part
3.	Sunaripal	65	Chhendipada	Angul	51.52	127.32	Part
4.	Takua	109	Chhendipada	Angul	31.33	77.42	Part
5.	Bainda	82	Kanhia	Angul	2.88	7.11	Part
6.	Balipata	71	Kanhia	Angul	75.61	186.84	Part
7.	Changudia	73	Kanhia	Angul	158.65	392.02	Part
8.	Debipatanapur	76	Kanhia	Angul	37.63	92.99	Part
9.	Kakudia	72	Kanhia	Angul	512.49	1266.35	Part
10.	Kalyanpur	77	Kanhia	Angul	40.76	100.73	Part
11.	Sanbirabarpur	75	Kanhia	Angul	11.70	28.92	Full
12.	Santrabondh	74	Kanhia	Angul	374.86	926.31	Part
Total Area:					2072.97	5122.41	

Total area: 2072.97 hectares (approximately)
or 5122.41 acres (approximately)

Boundary description:

- (1) Line A -A1: The line starts at point 'A' in the middle part of the Kalyanpur village, trending in Westerly direction and ends at point 'A1' of the boundary of Kalyanpur and Kakudia village.
- (2) Line A1-A2: The line starts at point 'A1' of the boundary of Kalyanpur and Kakudia village, trending in Westerly direction and ends at 'A2' in the middle part of Kakudia village.
- (3) Line A2-A3: The line starts at point 'A2' in the middle part of the Kakudia village, trending in Southerly direction and ends at 'A3' of the boundary of Kakudia and Debipatanapur village.
- (4) Line A3-A4: The line starts at point 'A3' of the boundary of Kakudia and Debipatanapur village, trending in Southerly direction and ends at 'A4' of the boundary of Debipatanapur and Bainda village.
- (5) Line A4-A5: The line starts at point 'A4' of the boundary of Debipatanapur and Bainda village, trending in Southerly direction and ends at 'A5' of the boundary of Bainda and Takua village.
- (6) Line A5-A6: The line starts at point 'A5' of the boundary of Bainda and Takua village, trending in Southerly direction and ends at 'A6' in the middle part of Takua village.
- (7) Line A6-A7: The line starts at point 'A6' in the middle part of Takua village, trending in West-north-westerly direction and ends at 'A7' of the boundary of Takua and Santrabandh (Thana number 106) village.
- (8) Line A7-A8: The line starts at point 'A7' of the boundary of Takua and Santrabandh (Thana number 106) village, trending in West-north-westerly direction and ends at 'A8' in the middle part of Santrabandh (Thana number 106) village.
- (9) Line A8-A9: The line starts at point 'A8' in the middle part of the Santrabandh (Thana number 106) village, trending in North-westerly direction and ends at 'A9' of the boundary of Santrabandh (Thana number 106) and Santrabondh (Thana number 74) village.
- (10) Line A9-A10: The line starts at point 'A9' of the boundary of Santrabandh (Thana number 106) and Santrabondh (Thana number 74) village, trending in North-westerly direction and ends at 'A10' at Olhãñi Nadi.

- (11) Line A10-A11: The line starts at point 'A10' of Olhañi Nadi, trending in North-easterly direction all along Olhañi Nadi and ends at 'A11' of the boundary of Santrabondh (Thana number 74) an Sunaripal village.
- (12) Line A11-A12: The line starts at point 'A11' of the boundary of Santrabondh (Thana number 74) and Sunaripal village, trending in North-easterly direction all along Olhañi Nadi and ends at 'A12' of the boundary of Sunaripal and Changuria (Thana number 64) village.
- (13) Line A12-A13: The line starts at point 'A12' of the boundary of Sunaripal and Changuria (Thana number 64) village, trending in North-easterly direction all along Olhañi Nadi and ends at 'A13' of the Olhañi Nadi and Changuria (Thana number 64) village.
- (14) Line A13-A14: The line starts at point 'A13' of the Olhañi Nadi and Changuria (Thana number 64) village, trending in East-south-easterly direction and ends at 'A14' of the village boundary of Changuria (Thana number 64) and Changudia (Thana number 73).
- (15) Line A14-A15: The line starts at point 'A14' of the village boundary of Changuria (Thana number 64) and Changudia (Thana number 73), trending in East-south-easterly direction and ends at 'A15' of the boundary of Changudia (Thana number 73) and Kakudia village.
- (16) Line A15-A16: The line starts at point 'A15' of the boundary of Changudia (Thana number 73) and Kakudia village, trending in East-south-easterly direction and ends at 'A16' of the boundary of Kakudia and Balipata village.
- (17) Line A16-A17: The line starts at point 'A16' of the boundary of Kakudia and Balipata village, trending in East-south-easterly direction and ends at 'A17' in the middle part of Balipata village.
- (18) Line A17-A18: The line starts at point 'A17' in the middle part of Balipata village, trending in Southerly direction and ends at 'A18' of the boundary of Balipata and Kalyanpur village.
- (19) Line A18-A: The line starts at point 'A18' of the boundary of Balipata and Kalyanpur village, trending in Southerly direction and ends at point 'A' in the middle part of the Kalyanpur village.

[F. No. 43015/05/2016- LA&IR]

N. K. SUDHANSU, Jt. Secy.